



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 847 राँची, मंगलवार

4 सितम्बर, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

23 जुलाई, 2018

संख्या-13/न्या० प्रो० नि०-04/2017 का० 5502-- झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 10/2015 के क्रम में आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थी को झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम-20 एवं 21(a) के अन्तर्गत झारखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-प्रशिक्षु के रूप में वेतनमान रु० 27700-770-33090-920- 44450-1080-44770/- में उनके पदस्थापन के बाद योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्रम सं०	रौल नम्बर	अनुशंसित अभ्यर्थी का नाम	कोटि	पता
1	2	3	4	5
1	15100379	श्रीमती पूजा कुमारी लाल	BC-2	स्थायी पता:- श्रीमती पूजा कुमारी लाल, पुत्री- श्री हेमंत कुमार, मनी भवन, महाबीर चौक, अपर बाजार, काली बाबू स्ट्रीट, जिला- रांची, झारखण्ड- 834001. पत्राचार पता:-do e-mail id- PUJA85785@Gmail.com

2. यह नियुक्ति परीक्ष्यमान रूप से होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि का विस्तार अथवा सम्पुष्टि झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 के नियम-21 एवं 22 के अनुसार यथाविहित झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आधार पर होगी ।

3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना के निर्गत होने से एक माह के अन्दर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-52 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने-देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र के साथ अपना योगदान झारखण्ड उच्च न्यायालय में देंगे ।

4. इनका पदस्थापन तथा वरीयता का निर्धारण झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

**प्रभुनाथ शर्मा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----